

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2016—आषाढ़ 22, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये तहसील एवं जिला स्तर की अधिसूचना क्रमांक 232, दिनांक 4 जून 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ एवं रबी 2016 के लिये अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार तहसील एवं जिला स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. तहसील एवं जिला स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली तहसीलवार फसलों की सूची प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232, दिनांक 4-6-2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है.

मौसम खरीफ 500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की तहसीलवार सूची वर्ष-2016-2017

जिला	तहसील	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	
भिण्ड	मेहगांव	ज्वार			तिल		
	गोहद	ज्वार			तिल		
	लहार	ज्वार			तिल		
	मिहोना	ज्वार			तिल		
	गोरमी	ज्वार			तिल		
	मौ	ज्वार			तिल		
	भिण्ड	ज्वार			तिल		
	रौन				तिल		
	खण्डवा	खण्डवा	ज्वार		मूंगफली	तिल	कपास
		पंधाना	ज्वार		मूंगफली		कपास
खालवा		ज्वार				कपास	
हरसूद						कपास	
पुनासा						कपास	
सीधी	रामपुरनैकिन	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	चुरहट	ज्वार					
	गोपदबनास	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	मझोली	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	सिंहावल	ज्वार					
	बहरी	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	कुसुमी		कोदो-कुटकी		तिल		
झाबुआ	झाबुआ	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	रानापुर	ज्वार		मूंगफली			
	पेटलावद					कपास	
	थांदला					कपास	
	मेघनगर					कपास	
	राणापुर					कपास	
अलीराजपुर	जोबट	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	चंद्रशेखर आजाद नगर	ज्वार				कपास	
धार	कुक्षी	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	डही	ज्वार				कपास	
	बदनावर					कपास	
	सरदारपुर					कपास	
	मनावर					कपास	
	धर्मपुरी					कपास	
	गंधवानी					कपास	
	धार					कपास	
राजगढ़	राजगढ़	ज्वार					
	सारगपुर	ज्वार					
	जीरापुर	ज्वार					
	ब्यावरा	ज्वार					
बैतूल	बैतूल	ज्वार	कोदो-कुटकी				
	मुलताई	ज्वार		मूंगफली			
	भैसदेही	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली			

	आठनेर	ज्वार		मूंगफली		
	चिचोली	ज्वार	कोदो-कुटकी			
	घोंडाडोगरी	ज्वार				
	आमला			मूंगफली		
कटनी	बड़वारा	ज्वार				
	बरही				तिल	
	रीठी				तिल	
	वि.गढ़				तिल	
	बडवारा				तिल	
खरगोन	सनावद			मूंगफली		कपास
छतरपुर	छतरपुर			मूंगफली	तिल	
	नौगांव			मूंगफली	तिल	
	राजनगर			मूंगफली	तिल	
	बिजावर				तिल	
	गौरीहार				तिल	
	बडामल्हारा				तिल	
	लबकुशनगर			मूंगफली	तिल	
	धुवारा				तिल	
	चंद्रला				तिल	
	महाराजपुर			मूंगफली	तिल	
	वक्सवाहा				तिल	
टीकमगढ़	निवाड़ी			मूंगफली	तिल	
	पृथ्वीपुर			मूंगफली	तिल	
	पलैरा			मूंगफली	तिल	
	टीकमगढ़			मूंगफली	तिल	
	बल्देवगढ़				तिल	
	जतारा			मूंगफली	तिल	
	खडगापुर				तिल	
	मोहनगढ़			मूंगफली	तिल	
	लिधोरा			मूंगफली	तिल	
	ओरछा			मूंगफली	तिल	
उमरिया	मानपुर		कोदो-कुटकी		तिल	
	चांदिया		कोदो-कुटकी		तिल	
	बाधवगढ़		कोदो-कुटकी			
	नौराजाबाद		कोदो-कुटकी			
	पाली		कोदो-कुटकी			
सिवनी	घंसौर		कोदो-कुटकी		तिल	
	घनोरा			मूंगफली		
	छपारा		कोदो-कुटकी	मूंगफली		
	लखनादौन		कोदो-कुटकी			
दतिया	दतिया			मूंगफली	तिल	
	सेवड़ा				तिल	
	इंदरगढ़				तिल	
	भांडेर				तिल	
	बढोनी				तिल	
बुरहानपुर	बुरहानपुर	ज्वार				कपास
	नेपानगर	ज्वार				कपास
	खकनार	ज्वार				कपास

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार
तहसीलवार की सूची**

प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232, दिनांक 4-6-2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है।

मौसम	रबी वर्ष-2016-2017	500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की तहसीलवार सूची
जिला	तहसील	अलसी
कटनी	बड़वारा	अलसी
उमरिया	बांधवगढ़	अलसी
	चंदिया	अलसी
	पाली	अलसी
	मानपुर	अलसी
	नरौजाबाद	अलसी
सीधी	गोपदबनास	अलसी
	बैहरी	अलसी
	मझौली	अलसी
	रामपुर नौकिन	अलसी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची

प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232, दिनांक 4-6-2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है।

क्रमांक	मौसम रबी जिला	वर्ष-2016-2017 मसूर
1	सीधी	मसूर
2	टीकमगढ़	मसूर
3	राजगढ़	मसूर
4	कटनी	मसूर
5	धार	मसूर
6	शाजापुर	मसूर
7	सीहोर	मसूर
8	सागर	मसूर
9	दतिया	मसूर
10	ग्वालियर	मसूर
11	बैतूल	मसूर
12	खंडवा	मसूर
13	भिण्ड	मसूर
14	मुरैना	मसूर
15	उमरिया	मसूर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची

प्रकाशित अधिसूचना क्र, 232 दिनांक 4.6.2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है ।

क्रमांक	मौसम खरीफ	वर्ष-2016-2017	
		जिला	उड़द
1	सिवनी		उड़द
2	सीधी	मूंग	उड़द
3	टीकमगढ़	मूंग	उड़द
4	झाबुआ		उड़द
5	अशोकनगर	मूंग	
6	राजगढ़	मूंग	उड़द
7	कटनी		उड़द
8	धार	मूंग	उड़द
9	शाजापुर		उड़द
10	सीहोर	मूंग	
11	सागर	मूंग	उड़द
12	अलीराजपुर	मूंग	
13	खंडवा	मूंग	उड़द
14	भिण्ड	मूंग	उड़द
15	मुरैना	मूंग	उड़द
17	उमरिया		उड़द
18	दतिया	मूंग	उड़द
19	ग्वालियर	मूंग	उड़द
20	होशंगाबाद	मूंग	
21	बैतूल	मूंग	उड़द